

\*प्रेस नोट\*

आज दिनांक 24-12-2020 को थाना सिगरा के उ0नि0 हरिश्चन्द्र वर्मा द्वारा मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में थाना क्षेत्र में मौजूद थे कि मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-486/2020 धारा-457/380 भादवि में वांछित अभियुक्त मन्नू बिंद पुत्र राजेन्द्र बिंद निवासा डी-59/217 निराला नगर सिगरा वाराणसी को पश्चिमी होटल तिराहे से समय करीब 12.35 बजे गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से चोरी के 02 अदद गैस सिलेण्डर व 01 अदद डी0वी0आर0 बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना सिगरा पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-\*

➤ मन्नू बिंद पुत्र राजेन्द्र बिंद निवासा डी-59/217 निराला नगर सिगरा वाराणसी उम्र-23 वर्ष।

\*बरामदगी का विवरण-\*

➤ 02 अदद गैस सिलेण्डर।

➤ 01 अदद डी0वी0आर0।

\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-\*

➤ उ0नि0 श्री हरिश्चन्द्र वर्मा, का0 अभिषेक सिंह व का0 सुजीत कुमार थाना सिगरा, जनपद वाराणसी।



प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

\*प्रेस नोट\*

जनपद वाराणसी में कोविड 19-महामारी से बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक बिना मास्क के घूम रहे व्यक्तियों, कालाबाजारी करने वालों दुकानदारों व यातायात नियमों का उल्लंघन करने व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 24-12-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए \*02 व्यक्ति के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट, 19 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी\* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया व बिना मास्क धारण किये \*कुल 21 व्यक्तियों से रु0-1500/- जुर्माना\* जमा कराया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जनपदीय पुलिस व यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए \*कुल 480 वाहनों का चालान, 16 वाहनों को सीज तथा 160 वाहनों से रु0-1,60,600/- समन शुल्क वसूल\* किया गया।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी  
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-[sspvns-up@nic.in](mailto:sspvns-up@nic.in), Facebook-policevaranasi  
संख्या: पीआरओ 104/2020 दिनांक: दिसम्बर, 24/2020

\*प्रेस नोट\*

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे \*“मिशन शक्ति”\* अभियान के अन्तर्गत दिनांक 24.12.2020 को वाराणसी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूल/कॉलेज व सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं/बालिकाओं के बीच जाकर पोस्टर/बैनर/पम्पलेट/आडियो/विडियो क्लिप के माध्यम से सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नम्बरों (112,1098,1090,181,1076,108,102) की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति पुलिस टीम जागरूकता अभियान चलाते हुए 162 स्थानों पर प्रचार-प्रसार कर कुल 4793 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया। मिशन शक्ति से सम्बन्धित 782 पर्चे वितरित किये गये। एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा कुल 163 स्थानों पर भ्रमण/चेकिंग करते हुए कुल 1659 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया व शोहदों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 के विरुद्ध 151 सीआरपीसी, 01 के विरुद्ध 294 भादवि की कार्यवाही की गयी व 150 शोहदों से पूछताछ एवं सख्त हिदायत दी गयी।

प्रभारी निरीक्षक

सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।